



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 आश्विन 1938 (श०)

(सं० पटना 885) पटना, शुक्रवार, 7 अक्टूबर 2016

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

29 जुलाई 2016

सं० 22 नि० सि० (सिवान)-11-06/2011/1617—श्री सुरेन्द्र नाथ वर्मा (आई० डी० 1713), तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल सं०-1, मधुबनी शिविर-पडरौना सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध वर्ष 2010-11 में पी० पी० तटबंध के उच्चीकरण एवं सृष्टीकरण कार्य में बरती गई कतिपय अनियमितता के प्रथम दृष्टया आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापक 1072 दिनांक 11.05.15 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी०) के तहत विभागीय कार्यवाही चलायी गयी।

उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षा में पाया गया कि संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप को प्रमाणित नहीं पाया गया है। समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री वर्मा को आरोप मुक्त करते हुए उक्त विभागीय कार्यवाही को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

उक्त निष्पत्ति के आलोक में श्री सुरेन्द्र नाथ वर्मा (आई० डी० 1713), तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल सं०-1, मधुबनी शिविर-पडरौना सम्प्रति सेवानिवृत्त को आरोप मुक्त करते हुए उनके विरुद्ध संचालित उक्त विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
जीउत सिंह,
सरकार के उप-सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 885-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>